


आवाज़

Les émotions



✎ Espen Stranger-Johannessen  
☑ Aakane  
📄 Pratibha Singh  
🗣️ हिन्दी / français [fr]



**LIDA Stories**


[lidastories.net](http://lidastories.net)

**आवाज़ / Les émotions**

✎ Espen Stranger-Johannessen  
☑ Aakane  
📄 Pratibha Singh (hi), Zina (fr)




This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International license.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>



“मुझे डर लग रहा है।”

...

“J'ai peur.”



“कितनी शर्म की बात है।”


...

“C'est dommage.”

“J'ai soif.”

...


“मुझे प्यास लगी है।”




“Aie !”

...

“आइ!”






“तुम ठीक तो हो?”

...

“Est-ce que ça va ?”



“मुझे नींद आ रही है।”


...

“J'ai sommeil.”

“J'ai mal à l'estomac.”

...


“ਸੇ ਰੇ ਖੁਰਾਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।”




“Je suis fatigué.”

...

“ਮੈਂ ਖੁਫ਼ ਗਿਆ।”






“मेरे सिर में दर्द है।”

...

“J'ai mal à la tête.”



“मुझे भूख लगी है।”

...

“J'ai faim.”